



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1977/पोष 22, 1898

No. 11]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1977/PAUSA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 12th January 1977

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby directs that the following further amendment be made in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Second Schedule, the following Heading shall be inserted at the end, namely:—

Heading No.	Description of articles	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
"22.	Cardamom	Rs. 50 per kilogram "

[No 9/F No. S-2/77-TRU (Cus)]

राजस्व और डेकिंग विभाग

अधिसूचनाएँ

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1977

सां. कां. नि० 13(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन और किए जाये, अर्थात् :—

उक्त द्वितीय अनुसूची के अन्त में निम्नलिखित शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

शीर्ष सं०	वस्तुओं का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
"22	इलायची	50 रु० प्रति किलो "।

[सं० 9/फा० सं० एस०-2/77-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the variety of Cardamom known by the botanical name 'Amomum Subulatum' falling under Heading No. 22 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule.

[No. 10/F. No. S-2/77-TRU(Cus.)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy

सां. कां. नि० 14(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं० 22 के अन्तर्गत सम्मिलित इलायची की उस किस्म को जो वनस्पति जगत में 'अमोमम सुबुलेटम' के नाम से विख्यात है। जब उनका निर्यात भारत से किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 10/फा० सं० एस०-2/77-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

जॉसेफ डोमिनिक, अवसर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977